



Mr.Chironji Lal Nagle

02 Nov 1978

03:30 AM

Harda Khas

Model: Web-MyKundli

Order No: 121458601

सूचना

ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रभावों की भविष्यवाणी करने हेतु ग्रहों की स्थिति एवं इसके बल की गणना की जाती है। जन्मपत्रिकाओं की गणना अति सटीक है जिसमें बिल्कुल सही रेखांश प्रयुक्त हुए हैं। सामान्य तौर पर इसमें चित्रापक्षीय अयनांश का प्रयोग किया जाता है जबतक कि आप दूसरे अयनांश का विकल्प न मांगें।

कम्प्यूटर जन्मपत्रिकाएं मुख्य रूप से पाराशरी पद्धति पर आधारित है। हालांकि इसमें ताजिक पद्धति, जैमिनी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, प्रश्नशास्त्र एवं पाश्चात्य पद्धतियों का भी ज्योतिषीय गणना में मिश्रण किया गया है। फलादेश मुख्य रूप से विभिन्न प्राचीन शास्त्रों जैसे बृहत् पराशर, होराशास्त्र, मानसागरी, सारावली, जातकभरणम, बृहत् जातक, फलदीपिका, जातक पारिजात के अनुरूप, साथ ही अपने अनुभवों का भी समावेश करके बनाया गया है। फिर भी, ज्योतिष का मार्गदर्शन लेकर हम अपने भविष्य का संकेत मात्र प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ही यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आनेवाले समय में क्या घटित होगा ?

यह जन्मपत्रिका जन्म तिथि, जन्म समय एवं जन्म स्थान पर आधारित है जो कि जातक ने हमें उपलब्ध कराया है। अतः आंकड़ों की सटीकता से संबंधित हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ज्योतिषीय गणना एवं फलादेश जातक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के ऊपर आधारित है। जन्मपत्रिका में दिए गए फलादेश जातक के लिए सिर्फ संकेत मात्र है जिस पर जातक को सावधानीपूर्वक अमल करना चाहिए न कि हूबहू जैसा फलादेश में कहा गया है, बिना सोचे समझे उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। जन्मपत्रिका के विभिन्न पृष्ठों में दी गयी सूचनाएं किसी भी प्रकार के विवाद अथवा वैधानिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः जातक की स्वयं की कार्यवाही से उत्पन्न हुए किसी भी क्षति के लिए हम उत्तरदायी नहीं है।

Shri Dadaji Jyotish Kendra

Shop No 05, Sanskrit Mahavidyalaya Parisar Itarsi

8871726789

dadajijyotishkendra@gmail.com

लिंग _____: पुल्लिंग
जन्म तिथि _____: 1-02/11/1978
दिन _____: बुध-गुरुवार
जन्म समय _____: 03:30:00 घंटे
इष्ट _____: 52:40:52 घटी
स्थान _____: Harda Khas
राज्य _____: Madhya Pradesh
देश _____: India

अक्षांश _____: 22:22:00 उत्तर
रेखांश _____: 77:08:00 पूर्व
मध्य रेखांश _____: 82:30:00 पूर्व
स्थानिक संस्कार _____: -00:21:28 घंटे
ग्रीष्म संस्कार _____: 00:00:00 घंटे
स्थानिक समय _____: 03:08:32 घंटे
वेलान्तर _____: 00:16:25 घंटे
साम्पातिक काल _____: 05:51:52 घंटे
सूर्योदय _____: 06:25:39 घंटे
सूर्यास्त _____: 17:44:25 घंटे
दिनमान _____: 11:18:46 घंटे
सूर्य स्थिति(अयन) _____: दक्षिणायन
सूर्य स्थिति(गोल) _____: दक्षिण
ऋतु _____: हेमन्त
सूर्य के अंश _____: 15:34:04 तुला
लग्न के अंश _____: 04:33:23 कन्या

अवकहड़ा चक्र

लग्न-लग्नाधिपति _____: कन्या - बुध
राशि-स्वामी _____: तुला - शुक्र
नक्षत्र-चरण _____: विशाखा - 3
नक्षत्र स्वामी _____: गुरु
योग _____: सौभाग्य
करण _____: बालव
गण _____: राक्षस
योनि _____: व्याघ्र
नाड़ी _____: अन्त्य
वर्ण _____: शूद्र
वश्य _____: मानव
वर्ग _____: सर्प
युँजा _____: मध्य
हंसक _____: वायु
जन्म नामाक्षर _____: ते-तेजवन्त
पाया(राशि-नक्षत्र) _____: रजत - ताम्र
सूर्य राशि(पाश्चात्य) _____: वृश्चिक

Shri Dadaji Jyotish Kendra

Shop No 05, Sanskrit Mahavidyalaya Parisar Itarsi

8871726789

dadajijyotishkendra@gmail.com

पंचांग

दादा का नाम _____ :
पिता का नाम _____ :
माता का नाम _____ :
जाति _____ :
गोत्र _____ :

| कैलेंडर | वर्ष | मास | तिथि/प्रविष्टे |
|------------|---------------|---------|----------------|
| राष्ट्रीय | शक : 1900 | कार्तिक | 11 |
| पंजाबी | संवत : 2035 | कार्तिक | 17 |
| बंगाली | सन् : 1385 | कार्तिक | 16 |
| तमिल | संवत : 2035 | आइपसी | 17 |
| केरल | कोल्लम : 1154 | तुलम | 17 |
| नेपाली | संवत : 2035 | कार्तिक | 17 |
| चैत्रादि | संवत : 2035 | कार्तिक | शुक्ल 2 |
| कार्तिकादि | संवत : 2035 | कार्तिक | शुक्ल 2 |

पंचांग

सूर्योदय कालीन तिथि _____ : 1
तिथि समाप्ति काल _____ : 24:06:28
जन्म तिथि _____ : 2
सूर्योदय कालीन नक्षत्र _____ : स्वाति
नक्षत्र समाप्ति काल _____ : 11:14:48 घंटे
जन्म योग _____ : विशाखा
सूर्योदय कालीन योग _____ : आयुष्मान
योग समाप्ति काल _____ : 19:30:54 घंटे
जन्म योग _____ : सौभाग्य
सूर्योदय कालीन करण _____ : किंस्तुघ्न
करण समाप्ति काल _____ : 12:54:57 घंटे
जन्म करण _____ : बालव
भयात _____ : 40:38:01
भभोग _____ : 57:30:30
भोग्य दशा काल _____ : गुरु 4 वर्ष 8 मा 20 दि

घात चक्र

मास _____ : माघ
तिथि _____ : 4-9-14
दिन _____ : गुरुवार
नक्षत्र _____ : शतभिषा
योग _____ : शुक्ल
करण _____ : तैतिल
प्रहर _____ : 4
वर्ग _____ : गरुड़
लग्न _____ : कन्या
सूर्य _____ : कन्या
चन्द्र _____ : धनु
मंगल _____ : तुला
बुध _____ : कर्क
गुरु _____ : वृश्चिक
शुक्र _____ : धनु
शनि _____ : सिंह
राहु _____ : मकर

Shri Dadaji Jyotish Kendra


Shop No 05, Sanskrit Mahavidyalaya Parisar Itarsi

8871726789


dadajijyotishkendra@gmail.com

जन्म कुण्डली

लग्न कुण्डली



चन्द्र कुण्डली



Shri Dadaji Jyotish Kendra

Shop No 05, Sanskrit Mahavidyalaya Parisar Itarsi

8871726789

dadajijyotishkendra@gmail.com

लग्न कुण्डली और दशा

लग्न कुण्डली

| | | | |
|----|----------|----------------|---------|
| के | | | |
| | | | गु |
| | | | श |
| | बु मं | शु सू चं | रा ल |

लग्न कुण्डली

| | | | |
|---|---------|----------------|----------|
| | | के | |
| | गु | | |
| श | | चं सू शु | |
| | ल रा | | मं बु |

विंशोत्तरी
गुरु 4वर्ष 8मा 20दि
गुरु
02/11/1978
24/07/2087

| | |
|--------|------------|
| गुरु | 24/07/1983 |
| शनि | 24/07/2002 |
| बुध | 24/07/2019 |
| केतु | 24/07/2026 |
| शुक्र | 24/07/2046 |
| सूर्य | 23/07/2052 |
| चन्द्र | 24/07/2062 |
| मंगल | 23/07/2069 |
| राहु | 24/07/2087 |

योगिनी
धान्या 0वर्ष 10मा 19दि
उल्का
20/09/2024
21/09/2030

| | |
|---------|------------|
| उल्का | 21/09/2025 |
| सिद्धा | 21/11/2026 |
| संकटा | 22/03/2028 |
| मंगला | 22/05/2028 |
| पिंगला | 20/09/2028 |
| धान्या | 22/03/2029 |
| भ्रामरी | 21/11/2029 |
| भद्रिका | 21/09/2030 |

Shri Dadaji Jyotish Kendra

Shop No 05, Sanskrit Mahavidyalaya Parisar Itarsi

8871726789

dadajijyotishkendra@gmail.com


ग्रह स्पष्ट तथा उनकी स्थिति

| ग्रह | व | अ | राशि | अंश | गति | नक्षत्र | पद | नं. | रा | न | अं. | स्थिति |
|---------|---|---|--------|----------|-----------|-------------|----|-----|-------|-------|-------|------------|
| लग्न | | | कन्या | 04:33:23 | 333:51:27 | उ०फाल्गुनी | 3 | 12 | बुध | सूर्य | शनि | --- |
| सूर्य | | | तुला | 15:34:04 | 01:00:04 | स्वाति | 3 | 15 | शुक्र | राहु | शुक्र | नीच राशि |
| चंद्र | | | तुला | 29:23:50 | 13:57:46 | विशाखा | 3 | 16 | शुक्र | गुरु | सूर्य | सम राशि |
| मंगल | | | वृश्चि | 06:20:23 | 00:43:04 | अनुराधा | 1 | 17 | मंगल | शनि | बुध | स्वराशि |
| बुध | | | वृश्चि | 04:28:52 | 01:24:00 | अनुराधा | 1 | 17 | मंगल | शनि | शनि | सम राशि |
| गुरु | | | कर्क | 14:34:50 | 00:04:30 | पुष्य | 4 | 8 | चंद्र | शनि | राहु | उच्च राशि |
| शुक्र | व | अ | तुला | 25:02:47 | 00:31:56 | विशाखा | 2 | 16 | शुक्र | गुरु | बुध | स्वराशि |
| शनि | | | सिंह | 17:56:20 | 00:05:11 | पू०फाल्गुनी | 2 | 11 | सूर्य | शुक्र | मंगल | शत्रु राशि |
| राहु | व | | कन्या | 02:28:41 | 00:07:20 | उ०फाल्गुनी | 2 | 12 | बुध | सूर्य | गुरु | मूलत्रिकोण |
| केतु | व | | मीन | 02:28:41 | 00:07:20 | पू०भाद्रपद | 4 | 25 | गुरु | गुरु | राहु | मूलत्रिकोण |
| हर्ष | | | तुला | 22:41:18 | 00:03:44 | विशाखा | 1 | 16 | शुक्र | गुरु | शनि | --- |
| नेप | | | वृश्चि | 23:06:03 | 00:01:53 | ज्येष्ठा | 2 | 18 | मंगल | बुध | चंद्र | --- |
| प्लूटो | | | कन्या | 23:55:06 | 00:02:15 | चित्रा | 1 | 14 | बुध | मंगल | मंगल | --- |
| दशम भाव | | | मिथु | 04:34:17 | -- | मृगशिरा | -- | 5 | बुध | मंगल | शुक्र | -- |


व - वकी स - स्थिर
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त
राहु : स्पष्ट

चित्रपक्षीय अयनांश : 23:33:38


लग्न-चलित



चन्द्र कुंडली



नवमांश कुंडली



Shri Dadaji Jyotish Kendra

Shop No 05, Sanskrit Mahavidyalaya Parisar Itarsi

8871726789

dadajijyotishkendra@gmail.com

चलित तथा निरयण भाव चलित

चलित अंश

| भाव | भाव संधि | भाव मध्य |
|-----|------------------|------------------|
| 1 | सिंह 19:33:32 | कन्या 04:33:23 |
| 2 | कन्या 19:33:32 | तुला 04:33:41 |
| 3 | तुला 19:33:50 | वृश्चिक 04:33:59 |
| 4 | वृश्चिक 19:34:08 | धनु 04:34:17 |
| 5 | धनु 19:34:08 | मकर 04:33:59 |
| 6 | मकर 19:33:50 | कुम्भ 04:33:41 |
| 7 | कुम्भ 19:33:32 | मीन 04:33:23 |
| 8 | मीन 19:33:32 | मेष 04:33:41 |
| 9 | मेष 19:33:50 | वृष 04:33:59 |
| 10 | वृष 19:34:08 | मिथुन 04:34:17 |
| 11 | मिथुन 19:34:08 | कर्क 04:33:59 |
| 12 | कर्क 19:33:50 | सिंह 04:33:41 |


निरयण भाव चलित

| भाव | राशि | अंश |
|-----|---------|----------|
| 1 | कन्या | 04:33:23 |
| 2 | तुला | 03:27:32 |
| 3 | वृश्चिक | 03:52:28 |
| 4 | धनु | 04:34:17 |
| 5 | मकर | 05:12:35 |
| 6 | कुम्भ | 05:33:27 |
| 7 | मीन | 04:33:23 |
| 8 | मेष | 03:27:32 |
| 9 | वृष | 03:52:28 |
| 10 | मिथुन | 04:34:17 |
| 11 | कर्क | 05:12:35 |
| 12 | सिंह | 05:33:27 |


तारा चक्र

| जन्म | सम्पत् | विपत् | क्षेम | प्रत्यारि | साधक | वध | मित्र | अतिमित्र |
|------------|-----------|----------|---------|-------------|------------|--------|---------|----------|
| विशाखा | अनुराधा | ज्येष्ठा | मूल | पूर्वाषाढा | उत्तराषाढा | श्रवण | धनिष्ठा | शतभिषा |
| पू०भाद्रपद | उ०भाद्रपद | रेवती | अश्विनी | भरणी | कृतिका | रोहिणी | मृगशिरा | आर्द्रा |
| पुनर्वसु | पुष्य | आश्लेषा | मघा | पू०फाल्गुनी | उ०फाल्गुनी | हस्त | चित्रा | स्वाति |

चलित कुंडली



भाव कुंडली



Shri Dadaji Jyotish Kendra

Shop No 05, Sanskrit Mahavidyalaya Parisar Itarsi

8871726789

dadajijyotishkendra@gmail.com

विंशोत्तरी दशा

भोग्य दशा काल : गुरु 4 वर्ष 8 मास 20 दिन

| गुरु 16 वर्ष | शनि 19 वर्ष | बुध 17 वर्ष | केतु 7 वर्ष | शुक्र 20 वर्ष |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02/11/1978 | 24/07/1983 | 24/07/2002 | 24/07/2019 | 24/07/2026 |
| 24/07/1983 | 24/07/2002 | 24/07/2019 | 24/07/2026 | 24/07/2046 |
| 00/00/0000 | शनि 27/07/1986 | बुध 19/12/2004 | केतु 20/12/2019 | शुक्र 22/11/2029 |
| 00/00/0000 | बुध 05/04/1989 | केतु 16/12/2005 | शुक्र 18/02/2021 | सूर्य 22/11/2030 |
| 00/00/0000 | केतु 15/05/1990 | शुक्र 16/10/2008 | सूर्य 26/06/2021 | चंद्र 23/07/2032 |
| 00/00/0000 | शुक्र 14/07/1993 | सूर्य 23/08/2009 | चंद्र 25/01/2022 | मंगल 22/09/2033 |
| 02/11/1978 | सूर्य 26/06/1994 | चंद्र 22/01/2011 | मंगल 23/06/2022 | राहु 22/09/2036 |
| सूर्य 22/11/1978 | चंद्र 26/01/1996 | मंगल 19/01/2012 | राहु 12/07/2023 | गुरु 24/05/2039 |
| चंद्र 23/03/1980 | मंगल 05/03/1997 | राहु 08/08/2014 | गुरु 17/06/2024 | शनि 24/07/2042 |
| मंगल 27/02/1981 | राहु 10/01/2000 | गुरु 13/11/2016 | शनि 26/07/2025 | बुध 24/05/2045 |
| राहु 24/07/1983 | गुरु 24/07/2002 | शनि 24/07/2019 | बुध 24/07/2026 | केतु 24/07/2046 |

| सूर्य 6 वर्ष | चंद्र 10 वर्ष | मंगल 7 वर्ष | राहु 18 वर्ष | गुरु 16 वर्ष |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 24/07/2046 | 23/07/2052 | 24/07/2062 | 23/07/2069 | 24/07/2087 |
| 23/07/2052 | 24/07/2062 | 23/07/2069 | 24/07/2087 | 00/00/0000 |
| सूर्य 10/11/2046 | चंद्र 24/05/2053 | मंगल 20/12/2062 | राहु 05/04/2072 | गुरु 10/09/2089 |
| चंद्र 12/05/2047 | मंगल 23/12/2053 | राहु 07/01/2064 | गुरु 29/08/2074 | शनि 23/03/2092 |
| मंगल 17/09/2047 | राहु 23/06/2055 | गुरु 13/12/2064 | शनि 05/07/2077 | बुध 29/06/2094 |
| राहु 10/08/2048 | गुरु 22/10/2056 | शनि 22/01/2066 | बुध 23/01/2080 | केतु 05/06/2095 |
| गुरु 30/05/2049 | शनि 24/05/2058 | बुध 19/01/2067 | केतु 09/02/2081 | शुक्र 03/02/2098 |
| शनि 12/05/2050 | बुध 23/10/2059 | केतु 17/06/2067 | शुक्र 10/02/2084 | सूर्य 02/11/2098 |
| बुध 18/03/2051 | केतु 23/05/2060 | शुक्र 16/08/2068 | सूर्य 03/01/2085 | 00/00/0000 |
| केतु 24/07/2051 | शुक्र 22/01/2062 | सूर्य 22/12/2068 | चंद्र 05/07/2086 | 00/00/0000 |
| शुक्र 23/07/2052 | सूर्य 24/07/2062 | चंद्र 23/07/2069 | मंगल 24/07/2087 | 00/00/0000 |

- ❖ उपरोक्त दशा चंद्रमा के अंशो के आधार पर दी गई है। भयात भभोग के आधार पर दशा का भोग्यकाल गुरु 4 वर्ष 8 मा 10 दि होता है।
- ❖ उपरोक्त तिथियां दशा के समाप्त होने का समय दर्शाती हैं। विंशोत्तरी दशा पूरे 120 वर्ष की बिना आयुनिर्णय के दी गई हैं।

Shri Dadaji Jyotish Kendra

Shop No 05, Sanskrit Mahavidyalaya Parisar Itarsi

8871726789

dadajijyotishkendra@gmail.com

विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| केतु - बुध 26/07/2025 24/07/2026 | शुक्र - शुक्र 24/07/2026 22/11/2029 | शुक्र - सूर्य 22/11/2029 22/11/2030 | शुक्र - चंद्र 22/11/2030 23/07/2032 | शुक्र - मंगल 23/07/2032 22/09/2033 |
| बुध 16/09/2025 केतु 07/10/2025 शुक्र 06/12/2025 सूर्य 24/12/2025 चंद्र 24/01/2026 मंगल 14/02/2026 राहु 09/04/2026 गुरु 27/05/2026 शनि 24/07/2026 | शुक्र 12/02/2027 सूर्य 13/04/2027 चंद्र 24/07/2027 मंगल 03/10/2027 राहु 03/04/2028 गुरु 12/09/2028 शनि 24/03/2029 बुध 12/09/2029 केतु 22/11/2029 | सूर्य 10/12/2029 चंद्र 10/01/2030 मंगल 31/01/2030 राहु 27/03/2030 गुरु 15/05/2030 शनि 11/07/2030 बुध 01/09/2030 केतु 23/09/2030 शुक्र 22/11/2030 | चंद्र 12/01/2031 मंगल 17/02/2031 राहु 19/05/2031 गुरु 08/08/2031 शनि 12/11/2031 बुध 07/02/2032 केतु 13/03/2032 शुक्र 23/06/2032 सूर्य 23/07/2032 | मंगल 17/08/2032 राहु 20/10/2032 गुरु 16/12/2032 शनि 21/02/2033 बुध 23/04/2033 केतु 17/05/2033 शुक्र 27/07/2033 सूर्य 18/08/2033 चंद्र 22/09/2033 |
| शुक्र - राहु 22/09/2033 22/09/2036 | शुक्र - गुरु 22/09/2036 24/05/2039 | शुक्र - शनि 24/05/2039 24/07/2042 | शुक्र - बुध 24/07/2042 24/05/2045 | शुक्र - केतु 24/05/2045 24/07/2046 |
| राहु 06/03/2034 गुरु 30/07/2034 शनि 19/01/2035 बुध 23/06/2035 केतु 26/08/2035 शुक्र 25/02/2036 सूर्य 20/04/2036 चंद्र 20/07/2036 मंगल 22/09/2036 | गुरु 30/01/2037 शनि 03/07/2037 बुध 18/11/2037 केतु 14/01/2038 शुक्र 25/06/2038 सूर्य 13/08/2038 चंद्र 02/11/2038 मंगल 29/12/2038 राहु 24/05/2039 | शनि 23/11/2039 बुध 05/05/2040 केतु 11/07/2040 शुक्र 20/01/2041 सूर्य 19/03/2041 चंद्र 23/06/2041 मंगल 30/08/2041 राहु 19/02/2042 गुरु 24/07/2042 | बुध 17/12/2042 केतु 16/02/2043 शुक्र 07/08/2043 सूर्य 28/09/2043 चंद्र 23/12/2043 मंगल 21/02/2044 राहु 26/07/2044 गुरु 11/12/2044 शनि 24/05/2045 | केतु 17/06/2045 शुक्र 27/08/2045 सूर्य 18/09/2045 चंद्र 23/10/2045 मंगल 17/11/2045 राहु 20/01/2046 गुरु 18/03/2046 शनि 24/05/2046 बुध 24/07/2046 |
| सूर्य - सूर्य 24/07/2046 10/11/2046 | सूर्य - चंद्र 10/11/2046 12/05/2047 | सूर्य - मंगल 12/05/2047 17/09/2047 | सूर्य - राहु 17/09/2047 10/08/2048 | सूर्य - गुरु 10/08/2048 30/05/2049 |
| सूर्य 29/07/2046 चंद्र 07/08/2046 मंगल 14/08/2046 राहु 30/08/2046 गुरु 14/09/2046 शनि 01/10/2046 बुध 17/10/2046 केतु 23/10/2046 शुक्र 10/11/2046 | चंद्र 25/11/2046 मंगल 06/12/2046 राहु 02/01/2047 गुरु 27/01/2047 शनि 25/02/2047 बुध 23/03/2047 केतु 02/04/2047 शुक्र 03/05/2047 सूर्य 12/05/2047 | मंगल 19/05/2047 राहु 07/06/2047 गुरु 25/06/2047 शनि 15/07/2047 बुध 02/08/2047 केतु 09/08/2047 शुक्र 31/08/2047 सूर्य 06/09/2047 चंद्र 17/09/2047 | राहु 05/11/2047 गुरु 19/12/2047 शनि 09/02/2048 बुध 26/03/2048 केतु 15/04/2048 शुक्र 08/06/2048 सूर्य 25/06/2048 चंद्र 22/07/2048 मंगल 10/08/2048 | गुरु 18/09/2048 शनि 04/11/2048 बुध 15/12/2048 केतु 01/01/2049 शुक्र 19/02/2049 सूर्य 05/03/2049 चंद्र 30/03/2049 मंगल 16/04/2049 राहु 30/05/2049 |

Shri Dadaji Jyotish Kendra

Shop No 05, Sanskrit Mahavidyalaya Parisar Itarsi

8871726789

dadajijyotishkendra@gmail.com

शुभाशुभ ज्ञानम्

शुभाशुभज्ञान आपको अपने मित्र एवं शत्रु वर्ग का बोध कराता है। मूलांक, भाग्यांक एवं मित्रांक से मित्रता एवं साझेदारी करने से लाभ तथा सहयोग की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ दिन एवं वर्ष उन्नति कारक तथा शुभ ग्रहों की दशाएं लाभदायक होती हैं। इसी प्रकार मित्रलग्न लाभदायक एवं मित्र राशि से घनिष्ठता होती है।

शुभरत्न धातु एवं रंग धारण करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता बनी रहती है तथा भाग्य रत्न धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुभ समय में कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से उसमें इच्छित सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही इष्टदेव का ध्यान एवं जप से मानसिक शान्ति तथा सफलता मिलती है। शुभ पदार्थ अन्न, द्रव्य आदि का दान या व्यापार शुभ दिशा में करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार शुभाशुभज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग शुभफलदायक सिद्ध हो सकता है।

| | |
|--------------|---------------------|
| मूलांक | 2 |
| भाग्यांक | 2 |
| मित्र अंक | 2, 7, 8 |
| शत्रु अंक | 4, 5, 6 |
| शुभ वर्ष | 20,29,38,47,56 |
| शुभ दिन | बुध, शुक्र |
| शुभ ग्रह | बुध, शुक्र |
| मित्र राशि | मकर, मिथुन |
| मित्र लग्न | धनु, वृष, कर्क |
| अनुकूल देवता | लक्ष्मी |
| शुभ रत्न | पन्ना |
| शुभ उपरत्न | संगपन्ना, मरगज |
| भाग्य रत्न | हीरा |
| शुभ धातु | कांसा |
| शुभ रंग | हरित |
| शुभ दिशा | उत्तर |
| शुभ समय | सूर्योदय के बाद |
| दान पदार्थ | हाथी दाँत, कपूर, फल |
| दान अन्न | मूँग |
| दान द्रव्य | घी |

Shri Dadaji Jyotish Kendra

Shop No 05, Sanskrit Mahavidyalaya Parisar Itarsi

8871726789


dadajijyotishkendra@gmail.com

रत्न चयन

रत्न जीवन में शुभत्व की वृद्धि के लिए धारण किए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से, रत्न अपने ग्रह की राशियों को पूर्णमात्रा में मानव शरीर में प्रवाहित कर ग्रह प्रभाव की वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि रत्न केवल शुभ ग्रहों का ही धारण किया जाता है। ग्रह शुभ माना जाता है यदि यह लग्न, त्रिकोण या केन्द्र में स्थापित हो या स्वामी हो। यह अशुभ होता है यदि यह त्रिक भाव से संबंधित हो। मित्रों की युति या दृष्टि भी इसकी शुभता बढ़ाती है। बाधक भाव का स्वामित्व शुभता कम कर देता है। चर लग्नों में एकादश, स्थिर में नवम व द्विस्वभाव में सप्तम भाव की बाधक संज्ञा है। उपरोक्त तथ्य रत्न चयन हेतु ग्रह की शुभता दर्शाते हैं।

नीचे जन्मकुण्डली में ग्रहों की शुभता को सारणी व ग्राफ में दर्शित किया गया है। साथ ही कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में कार्य सिद्ध कर सकता है दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नों की शुभता भी नीचे तालिका में दी गई है। जिस ग्रह को 75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उसके रत्न हमें सर्वदा बिना दशा विचार के धारण करने चाहिए। जिन्हें 50-75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उन्हें कार्य क्षेत्र अनुसार व अनुकूल दशा में धारण करना चाहिए। जो रत्न केवल 25-50 प्रतिशत शुभता लिए हैं उनके रत्न केवल उनकी या उनके मित्रों की दशा में धारण करने चाहिए। अन्ततः जिन्हें 25 प्रतिशत से भी कम शुभता प्राप्त है वे ग्रह अपने लिए अशुभ ही समझें और उनके रत्नों को पहनने से बचना चाहिए।

| रत्न | ग्रह | शुभता | क्षेत्र |
|----------|-------|-------|---------------------------------------|
| पन्ना | बुध | 97% | पराक्रम, व्यावसायिक उन्नति, स्वास्थ्य |
| हीरा | शुक्र | 93% | धन, भाग्योदय |
| गोमेद | राहु | 72% | स्वास्थ्य, पराक्रम |
| पुखराज | गुरु | 69% | धनार्जन, सुख, दम्पति |
| मोती | चंद्र | 66% | धन, धनार्जन |
| लहसुनिया | केतु | 64% | दम्पति, धनार्जन |
| नीलम | शनि | 41% | व्यय, सन्तति कष्ट, शत्रु व रोग |
| माणिक्य | सूर्य | 0% | धन हानि, व्यय |
| मूंगा | मंगल | 0% | पराक्रम हानि, दुर्घटना |



दशानुसार रत्न विचार

| दशा | समाप्ति | माणिक्य | मोती | मूंगा | पन्ना | पुखराज | हीरा | नीलम | गोमेद | लहसुनिया |
|-------|------------|---------|------|-------|-------|--------|------|------|-------|----------|
| गुरु | 24/07/1983 | 12% | 72% | 2% | 84% | 81% | 81% | 41% | 72% | 64% |
| शनि | 24/07/2002 | 0% | 53% | 0% | 100% | 69% | 100% | 58% | 78% | 52% |
| बुध | 24/07/2019 | 12% | 53% | 0% | 100% | 69% | 100% | 41% | 72% | 64% |
| केतु | 24/07/2026 | 0% | 53% | 2% | 97% | 69% | 100% | 16% | 60% | 77% |
| शुक्र | 24/07/2046 | 0% | 53% | 0% | 100% | 69% | 100% | 52% | 78% | 71% |
| सूर्य | 23/07/2052 | 25% | 72% | 2% | 97% | 75% | 81% | 16% | 60% | 52% |
| चंद्र | 24/07/2062 | 12% | 78% | 0% | 100% | 69% | 93% | 41% | 60% | 52% |
| मंगल | 23/07/2069 | 12% | 72% | 15% | 84% | 75% | 93% | 41% | 60% | 71% |
| राहु | 24/07/2087 | 0% | 53% | 0% | 97% | 69% | 100% | 52% | 85% | 52% |

Shri Dadaji Jyotish Kendra

Shop No 05, Sanskrit Mahavidyalaya Parisar Itarsi

8871726789

dadajijyotishkendra@gmail.com

साढ़ेसाती विचार

चंद्रमा से जन्म कुंडली में जब गोचरवश शनि की स्थिति द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय स्थान में होती है तो साढ़ेसाती कहलाती है। शनि की चंद्रमा से चतुर्थ एवं अष्टम भाव में स्थिति होने पर ढैया शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट देता है। लेकिन कई बार यह आश्चर्यजनक उन्नति भी प्रदान करती है। साढ़ेसाती का प्रभाव सात वर्ष एवं ढैया का प्रभाव ढाई वर्ष रहता है।

सामान्यतया साढ़ेसाती मनुष्य के जीवन में तीन बार आती है। प्रथम बचपन में द्वितीय युवावस्था में तथा तृतीय वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़ेसाती का प्रभाव शिक्षा एवं माता-पिता पर पड़ता है। द्वितीय साढ़ेसाती का प्रभाव कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति एवं परिवार पर पड़ता है परंतु तृतीय साढ़ेसाती स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव करती है।

निम्नलिखित तालिका में साढ़ेसाती का समय तथा प्रत्येक ढैया का शुभाशुभ फल इंगित किया गया है।

प्रथम चक्र:

| | | |
|------------------------|---|-------|
| साढ़ेसाती प्रथम ढैया | 04/11/1979-15/03/1980 27/07/1980-06/10/1982 | ----- |
| साढ़ेसाती द्वितीय ढैया | 06/10/1982-21/12/1984 01/06/1985-17/09/1985 | ----- |
| साढ़ेसाती तृतीय ढैया | 21/12/1984-01/06/1985 17/09/1985-17/12/1987 | ----- |
| चतुर्थ स्थानस्थ ढैया | 21/03/1990-20/06/1990 15/12/1990-05/03/1993 15/10/1993-10/11/1993 | ----- |
| अष्टम स्थानस्थ ढैया | 07/06/2000-23/07/2002 08/01/2003-07/04/2003 | ----- |

द्वितीय चक्र:

| | | |
|------------------------|---|-------|
| साढ़ेसाती प्रथम ढैया | 10/09/2009-15/11/2011 16/05/2012-04/08/2012 | ----- |
| साढ़ेसाती द्वितीय ढैया | 15/11/2011-16/05/2012 04/08/2012-02/11/2014 | ----- |
| साढ़ेसाती तृतीय ढैया | 02/11/2014-26/01/2017 21/06/2017-26/10/2017 | ----- |
| चतुर्थ स्थानस्थ ढैया | 24/01/2020-29/04/2022 12/07/2022-17/01/2023 | ----- |
| अष्टम स्थानस्थ ढैया | 08/08/2029-05/10/2029 17/04/2030-31/05/2032 | ----- |

तृतीय चक्र:

| | | |
|------------------------|---|-------|
| साढ़ेसाती प्रथम ढैया | 22/10/2038-05/04/2039 13/07/2039-28/01/2041 06/02/2041-26/09/2041 | ----- |
| साढ़ेसाती द्वितीय ढैया | 28/01/2041-06/02/2041 26/09/2041-11/12/2043 23/06/2044-30/08/2044 | ----- |
| साढ़ेसाती तृतीय ढैया | 11/12/2043-23/06/2044 30/08/2044-08/12/2046 | ----- |
| चतुर्थ स्थानस्थ ढैया | 06/03/2049-10/07/2049 04/12/2049-25/02/2052 | ----- |
| अष्टम स्थानस्थ ढैया | 27/05/2059-11/07/2061 13/02/2062-07/03/2062 | ----- |

शनि का ढैया फल

| ढैया के प्रकार | फल | क्षेत्र |
|------------------------|-----|--------------|
| साढ़ेसाती प्रथम ढैया | सम | स्वास्थ्य |
| साढ़ेसाती द्वितीय ढैया | शुभ | धन |
| साढ़ेसाती तृतीय ढैया | सम | पराक्रम हानि |
| चतुर्थ स्थानस्थ ढैया | शुभ | सन्तति सुख |
| अष्टम स्थानस्थ ढैया | शुभ | भाग्योदय |

Shri Dadaji Jyotish Kendra

Shop No 05, Sanskrit Mahavidyalaya Parisar Itarsi

8871726789

dadajijyotishkendra@gmail.com

साढ़ेसाती के उपाय

शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिये दान, पूजन, व्रत, मंत्र आदि उपाय किये जा सकते हैं। इसके लिये शनिवार को काला कंबल, उड़द की दाल, काले तिल, चर्म-पादुका, काला कपड़ा, मोटा अनाज, तिल तथा लोहे का दान करना चाहिये। शनिदेव की पूजा एवं शनिवार का व्रत रखना चाहिये। उपवास के दिन उड़द की दाल से बनी वस्तु, चने, बेसन, काले तिल, काला नमक तथा फलों का ही सेवन करना चाहिये। साथ ही स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा शनि के निम्न मंत्र के 19000 जप संपन्न करवाने चाहिये।

ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ।।

शनि की साढ़ेसाती में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक शांति एवं समृद्धि, आर्थिक सुदृढ़ता तथा कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिये निम्नलिखित महामृत्युंजय मंत्र के 125000 जप स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा करवाने चाहिये।

**ॐ त्र्यंबकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।**

वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित मंत्र के प्रतिदिन 108 जप किये जा सकते हैं।

ॐ हों जूं सः ॐ भूर्भुव स्वः ॐ ।।

शनि की साढ़ेसाती के शुभत्व को बढ़ाने के लिये शनिवार के दिन आप 5 1/4 रत्ती का नीलम रत्न पंचधातु में (सोना, चांदी, तांबा, लोखंड, जस्ता) या घोड़े की नाल या नाव की कील से निर्मित लोहे की अंगूठी धारण करें। लोहे की अंगूठी आप दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें।

अंगूठी शुक्ल पक्ष की शनिवार की सायं सूर्यास्त के समय धारण करें। पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अति शुभ हैं। उस दिन शनिवार का उपवास भी करना चाहिए। अंगूठी धारण करने से पूर्व इसे शुद्ध दूध एवं गंगाजल में स्नान कराना चाहिए तथा धूप आदि जलाकर शनि का पूजन करना चाहिए एवं निम्न मंत्र की एक माला या 108 बार जप करना चाहिए। नीलम मध्यमा उंगली में या गले में पेन्डन्ट बनाकर धारण करें।

ॐ शं शनैश्चराय नमः ।

अंगूठी धारण करने के पश्चात शनि की वस्तुओं का दान देना चाहिए। इससे शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आयेगी तथा आपकी सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होगी।

श्री हनुमान चालीसा एवं श्री हनुमान अष्टक का पाठ करना श्रेष्ठ है।

Shri Dadaji Jyotish Kendra

Shop No 05, Sanskrit Mahavidyalaya Parisar Itarsi

8871726789

dadajijyotishkendra@gmail.com

मांगलिक विचार

जब वर या कन्या की कुंडली में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष कहलाता है। यथोक्तम्

**लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे ।
स्त्री भर्तुर्विनाशं च भर्ता च स्त्री विनाशनम् ।**

मांगलिक दोष लग्न से अधिक प्रबल माना जाता है लेकिन चन्द्रमा से इसका दोष लग्न की अपेक्षा अल्प होता है। यदि शास्त्रानुसार वर एवं कन्या का मांगलिक दोष भंग हो जाता है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुख एवं प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होता है। इसके विपरीत बिना दोष भंग हुए मांगलिक वर-कन्याओं को जीवन में कई प्रकार की अनावश्यक समस्याओं तथा व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। अतः विवाह से पूर्व शुद्ध कुण्डली मिलान से इस दोष का उचित निवारण करके ही दाम्पत्य जीवन प्रारम्भ करना चाहिए जिससे जीवन में शान्ति तथा सम्पन्नता बनी रहे।

आपके जन्म समय में मंगल की स्थिति तृतीय भाव में है। यह भाव पराक्रम मित्र एवं भाई बहनों का प्रतिनिधि भाव है तथा मंगल इनका कारक है अतः तृतीय भाव में मंगल की स्थिति शुभ मानी जाती है। इसके प्रभाव से आप एक पराक्रमी पुरुष होंगे तथा अपने समस्त सांसारिक कार्य कलापों को आप निर्भय होकर सम्पन्न करेंगे तथा इनमें आपको समय समय पर इच्छित सफलता प्राप्त होगी। साथ ही भाई बहनों से भी आवश्यक सुख एवं सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी तथा अपने परिश्रम एवं पराक्रम से आप संचार साधनों को भी अर्जित करने में समर्थ रहेंगे।

कुंडली में तृतीयस्थ मंगल की चतुर्थ दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ेगी इसके प्रभाव से शत्रु वर्ग को पराजित करने में आप समर्थ रहेंगे तथा प्रतियोगी परीक्षाओं मुकद्दमों या चुनाव आदि में आपको जीवन में सामान्यतया सफलताएं मिलती रहेंगी। साथ ही इच्छित मात्रा में धनऐश्वर्य की भी प्राप्ति होगी परन्तु पित गर्मी अथवा रक्त विकार संबंधी किसी परेशानी से शारीरिक कष्ट हो सकता है। नवम भाव पर सप्तमस्थ दृष्टि से धर्म एवं धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि अल्प मात्रा में रहेगी तथा भाग्य की अपेक्षा कर्म करने पर ही आप अधिक विश्वास करेंगे। दशम भाव पर मंगल की दृष्टि से कार्य क्षेत्र में आप स्वपराक्रम एवं योग्यता से उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहेंगे। यद्यपि इनमें आपको न्यूनाधिक समस्याओं एवं व्यवधानों का भी सामना करना पड़ेगा परन्तु अंततोगत्वा आप अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल रहेंगे। लेकिन पिता के स्वास्थ्य के लिए यह स्थिति मध्यम रहेगी परन्तु समाज में वे सम्मानीय पुरुष होंगे तथा अन्य जनों से पूर्ण आदर प्राप्त करेंगे।

इस प्रकार मंगल की इस स्थिति के प्रभाव से आपका दाम्पत्य जीवन सामान्यतया सुख शान्ति से परिपूर्ण रहेगा तथा परिवार का यथोचित पालन करने में आप समर्थ रहेंगे।

Shri Dadaji Jyotish Kendra

Shop No 05, Sanskrit Mahavidyalaya Parisar Itarsi

8871726789

dadajijyotishkendra@gmail.com

पारिवारिक जनों से आपको यथोचित सहयोग एवं प्रोत्साहन मिलता रहेगा जिससे आप उत्साह पूर्वक अपने सांसारिक कार्यों को सम्पन्न करने में तत्पर रहेंगे।



Shri Dadaji Jyotish Kendra

Shop No 05, Sanskrit Mahavidyalaya Parisar Itarsi

8871726789

dadajijyotishkendra@gmail.com

कालसर्प योग

अग्रे राहुरधः केतुः सर्वे मध्यगताः ग्रहाः ।
योगाऽयं कालसर्पाख्यो शीघ्रं तं तु विनाशय ॥

आगे राहु हो एवं नीचे केतु मध्य में सभी (सातों) ग्रह विद्यमान हो तो कालसर्प योग बनता है। द्वादश भावों में राहु की स्थिति के अनुसार काल सर्प योग मुख्यतः द्वादश प्रकार के होते हैं। वे हैं-

1. अनंत, 2. कुलिक, 3. वासुकि, 4 शङ्खपाल, 5. पद्म, 6. महापद्म, 7. तक्षक, 8. कर्कोटक, 9. शङ्खचूड, 10. घातक, 11. विषधर, 12. शेषनाग ।

यह योग उदित अनुदित भेद से दो प्रकार के होते हैं राहु के मुख में सभी सातों ग्रह ग्रसित हो जाएं तो उदित गोलाब्ध नामक योग बनता है एवं राहु की पृष्ठ में यदि सभी ग्रह हों तो अनुदितन गोलाब्ध नामक योग बनता है।

इस योग में उत्पन्न जातक को मानसिक अशांति, धनप्राप्ति में बाधा, संतान अवरोध एवं गृहस्थी में प्रतिपल कलह के रूप में प्रकट होता है। प्रायः जातक को बुरे स्वप्न आते हैं। कुछ न कुछ अशुभ होने की आशंका मन में बनी रहती है। जातक को अपनी क्षमता एवं कार्यकुशलता का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कार्य अक्सर देर से सफल होते हैं। अचानक नुकसान एवं प्रतिष्ठा की क्षति इस योग के लक्षण हैं।

जातक के शरीर में वात पित्त त्रिदोषजन्य असाध्य रोग अकारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोग जो प्रतिदिन क्लेश (पीडा) देते हैं तथा औषधि लेने पर भी ठीक नहीं होते हों, काल सर्प योग के कारण होते हैं। काल सर्प योग के उपाय इन कष्टों से राहत के लिये आवश्यक हो जाते हैं।

जातक पर काल सर्प योग का प्रभाव

आपकी जन्मपत्रिका में काल सर्प योग विद्यमान नहीं है। अतः आपको इस योग के लिए शांति आदि की आवश्यकता नहीं है एवं आप पूर्ण रूप से सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

पितृदोष विचार

पितृदोष क्या है ?

हमारे पूर्वज या परिवार के सदस्य मृत्योपरान्त पितृ संज्ञा प्राप्त करते हैं। पितृ हमारे और भगवान के बीच की कड़ी होते हैं। यदि ये प्रसन्न होते हैं तो जातक सुखी जीवन भोगता है, लेकिन यदि किसी कारणवश ये अप्रसन्न हो जाते हैं तो जातक को अनेक प्रकार की व्याधियाँ व कष्ट झेलने पड़ते हैं।

कालांतर में पितृ या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, या पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म ले लेते हैं। यदि परिवार के सभी पितरों का पुनर्जन्म या मोक्ष हो गया हो तो कुछ समय के लिए उस परिवार के कोई पितृ नहीं होते। ऐसे में जातक सुख दुख अपनी कुंडली अनुसार प्राप्त करता है। अतः परिवार के सदस्यों को चाहिए कि जब तक वे पितृ लोक में हैं तब तक तर्पणादि से उनकी सेवा करें। यदि पितृ प्रसन्न रहते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप जातक चहुमुखी प्रगति प्राप्त करता है।

पितृ अप्रसन्न, दुःखी एवं अतृप्त होते हैं यदि किसी पूर्वज की अंतिम इच्छा पूर्ण न हुई हो, या किसी के द्वारा श्रापित हों या असामयिक मृत्यु हो गई हो। पितृ योनि में रहते हुए भी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। यदि परिवार के सदस्य तर्पणादि द्वारा भोजन नहीं देते हैं तो वे भूख से व्याकुल हो जाते हैं। पितृ विभिन्न प्रकार के कष्टों की अनुभूति करते हैं जब तक कि जातक पितरों की शांति हेतु पूजन-पाठ, पिंडदान, तर्पण आदि न करे।

पितृ दोष अपने कर्मों के कारण न हो करके, अपने माता-पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण होते हैं, क्योंकि यह दोष तो जातक के जन्म से जन्मपत्री में विद्यमान होता है जबकि कर्म तो जन्म के बाद ही बनते हैं। अतः पितृदोष ऐसा दोष है जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता, केवल लक्षण दर्शित होते हैं। जन्मपत्री में भी शुभ दशा व गोचर के योग होते हुए भी हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता, या घर में सदैव कलह, अशांति, धन की कमी व बीमारी लगी रहती है। संतान नहीं होती या संतान विक्षिप्त होती है, बच्चों के विवाह में अड़चन आती है या उनके विकास में अवरोध आते हैं। अतः जब भी किसी प्रकार की समस्या बार-बार आती है एवं कोई कारण नजर न आता हो तो हमें पितृ दोष की शांति करवानी चाहिए जब तक कि वातावरण और परिस्थितियां अनुकूल न हो जाएं।

पितृदोष लक्षण

1. परिवार में आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होना।
2. आनुवांशिक बीमारी होना और लंबी अवधि तक बीमारी का चलना।
3. परिवार में शारीरिक रूप से विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना।
4. परिवार में बच्चों द्वारा असम्मान या प्रताड़ना का व्यवहार करना।
5. गर्भ धारण न होना या गर्भपात होना।
6. परिवार के किसी सदस्य का विवाह न होना।

7. परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा-फसाद होना।
8. कभी खत्म न होने वाली गरीबी परिवार में हो जाना।
9. बुरी आदतों की लत लग जाना।
10. परिवार में बार-बार केवल कन्या संतान का जन्म होना।
11. शिक्षा में बाधाएं आना।
12. स्वप्न में सांप दिखाई देना।
13. माथे पर गंदी करतूतों का कलंक लगना।
14. परिवार में किसी बुजुर्ग के बाल सफेद होने के पश्चात पीले होने लगना या काली खांसी होना।
15. परिवार के किसी सदस्य को स्वप्न में पूर्वज द्वारा खाना या कपड़े मांगते हुए दिखना।

पितृ की पहचान :

1. श्रीमद् भगवद् गीता के ग्यारहवें अध्याय का पाठ करें तो आपको कुछ दिनों में ही स्वप्न में पितृ दर्शन होंगे।
2. रात को सोने से पहले हाथ पैर धोकर अपने मन में अपने पितृ से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे पितृ हैं वे मुझे दर्शन दें।
3. यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है तो अपने पितृ को याद कीजिए और उन्हें कहें कि यदि आप हैं तो मेरा अमुक कार्य हो जाए। मैं आपके लिए शांति पाठ कराउंगा। आपकी ऐसी प्रार्थना से कार्य सिद्धि हो जाने पर यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपको पितृ शांति करवानी चाहिए।

पितृ दोष उपाय :

1. श्राद्ध पक्ष में मृत्यु तिथि के दिन तर्पण व पिंडदान करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं व वस्त्र/दक्षिणा आदि दें।
2. यदि मृत्युतिथि न मालूम हो तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन तर्पण व पिंडदानादि कर्म करें।
3. प्रत्येक अमावस्या विशेषतः सोमवती अमावस्या को पितृभोग दें। इस दिन गोबर के कंडे जलाकर उसपर खीर की आहुति दें। जल के छींटे देकर हाथ जोड़ें व पितृ को नमस्कार करें।
4. सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें व गायत्री मंत्र का जप करें।
5. पीपल के पेड़ पर जल, पुष्प, दूध, गंगाजल व काले तिल चढ़ाकर पितृ को याद करें, माफी और आशीष मांगें।
6. रविवार के दिन गाय को गुड़ या गेहूं खिलाएं।
7. लाल किताब के अनुसार परिवार में जहां तक खून का रिश्ता है जैसे दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, ताया, बहन, बेटी, बुआ, भाई सबसे बराबर-बराबर धन, 1, 5 या दस रुपए लेकर मंदिर में दान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है।
8. हरिवंश पुराण का श्रवण और गायत्री जप पितृ शांति के लिए लोकप्रसिद्ध है।
9. गया या त्र्यंबकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध या नन्दी श्राद्ध करें।
10. नारायणबलि पूजा करवाएं।

Shri Dadaji Jyotish Kendra

Shop No 05, Sanskrit Mahavidyalaya Parisar Itarsi

8871726789

dadajijyotishkendra@gmail.com

11. पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवाएं -

ॐ देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च ।

नमः स्वाहायै स्वधायैः नित्यमेव नमो नमः ॥

12. पितृ दोष निवारण उपायों में गया में पिंडदान, गया श्राद्ध तथा पितृ भोग अर्पण आदि क्रियाएं करते हुए उपरोक्त पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए ।

13. श्री कृष्ण मुखामृत गीता का पाठ करें ।

पितृ पूजा के लिए आवश्यक निर्देश :

1. पितरों को मांस वाला भोजन न अर्पित करें ।
2. पूजा के दिन स्वयं भी मांस भक्षण न करें ।
3. पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन का प्रयोग न करें । मिट्टी या पत्तों के बर्तनों का ही प्रयोग करें ।
4. पितृ पूजा में घंटी न बजाएं ।
5. पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा में व्यवधान न डालें ।
6. बुजुर्गों का सम्मान करें ।
7. पितरों के निमित्त किये जाने वाले गौ-दान से पितृ तृप्त होते हैं ।
8. घर में पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर विशेष पवित्रता रखें । यह स्थान पितृओं का स्थान माना जाता है ।
9. पितृ कर्म हेतु साल में 12 मृत्यु तिथि, 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांति, 12 वैधृति योग, 24 एकादशी व श्राद्ध के 15 दिन मिलाकर कुल 99 दिन होते हैं ।

आपकी कुण्डली में पितृदोष

- नवम् भाव के स्वामी पर शनि का प्रभाव है ।

आपकी कुण्डली में शुक्र के कारण पितृदोष है ।

आपकी कुण्डली में शुक्र पितृदोष कारक ग्रह है अतः परिवार के किसी महिला पूर्वज द्वारा किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है । इस दोष के निवारणार्थ गरीब या जरूरतमंद स्त्रियों, कन्याओं को तथा पत्नी को दान दें । 11 वर्ष से छोटी 9 कन्याओं को मंदिर में खीर खिलायें ।

आपकी कुण्डली में पितृदोष का योग है परंतु यदि आपको अपने जीवन में उपरोक्त वर्णित पितृदोष लक्षण में से किसी प्रकार का कष्ट या परेशानी की अनुभूति नहीं हो रही है तो आपको पितृदोष संबंधी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है । संभव है कि किसी शुभकार्य के कारण आपके पितृ प्रसन्न हो गए हों व आपको उनकी कृपा प्राप्त हो रही हो या वे मोक्ष को प्राप्त हो गए हों ।

Shri Dadaji Jyotish Kendra

Shop No 05, Sanskrit Mahavidyalaya Parisar Itarsi

8871726789

dadajijyotishkendra@gmail.com

नोट :

त्रिपिण्डी श्राद्ध एवं नारायण नाग बली पितृदोष के लिए मुख्य उपाय हैं। यह स्रयंबकेश्वर में विशेष रूप से कराये जाते हैं। त्रिपिण्डी श्राद्ध में आटे को पानी में मांढ़ कर पुतले के रूप में पूर्वजों के प्रतीकात्मक पिंड बना लिये जाते हैं, उन पर मंत्रों का पाठ किया जाता है। अंत में अस्थि विसर्जन के समान उनको जल में प्रवाह कर दिया जाता है।

नारायण नागबलि, पूर्वजों के मोक्ष व उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कराया जाता है। इसमें दो दिन श्मशान क्रिया होती है व तीसरे दिन मांगलिक पूजा की जाती है। यदि पितृदोष के कारण संतान बाधा या विवाह बाधा आदि होती है तो इस उपाय के पश्चात जातक बाधामुक्त हो जाता है और काम स्वतः बनने लगते हैं।



ग्रह फल

सूर्य

द्वितीय भाव में सूर्य हो तो जातक भाग्यवान्, सम्पत्तिवान्, मुखरोगी, झगड़ालू, नेत्रकर्णदन्तरोगी, राजभीरु, घरेलू जीवन दुःखी एवं स्त्री के लिए कुटुम्बियों से झगड़ने वाला होता है।

तुला राशि में रवि हो तो जातक मन्दाग्नि रोगी, आत्मबलहीन, मलीन व्यभिचारी, परदेशाभिलाषी, नैतिकता की कमी एवं दूसरों से दबने वाला होता है।

आपके जन्म समय में सूर्य द्वितीय भाव में है। अतः आपके पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा परन्तु यदा कदा अल्प मात्रा में शारीरिक दुर्बलता की अनुभूति होती रहेगी। आपके प्रति उनका प्रेम भाव रहेगा तथा विद्यार्जन एवं धनार्जन संबंधी शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में वे आपको पूर्ण सहायता तथा सहयोग प्रदान करते रहेंगे। साथ ही वे समय समय पर आपको आर्थिक सहयोग भी प्रदान करेंगे।

आप भी उनका हार्दिक सम्मान तथा आदर करेंगे एवं यत्नपूर्वक उनकी सेवा करने के लिए भी तत्पर रहेंगे। उनकी आज्ञा का पालन करना आप अपना कर्तव्य समझेंगे। आपके परस्पर संबंध मधुर रहेंगे परन्तु यदा कदा मतभेद होने से विवाद आदि की स्थिति भी उत्पन्न होगी परन्तु कुछ समय पश्चात सब कुछ ही ठीक हो जाएगा।

चन्द्र

द्वितीयभाव में चन्द्रमा हो तो जातक परदेशवासी, भोगी, सुन्दर मधुरभाषी, भाग्यवान्, सहनशील एवं शान्तिप्रिय होता है।

तुला राशि में चन्द्रमा हो तो जातक दीर्घदेही, आस्तिक, अन्नदाता, धनवान्, जमींदार, कुशाबुद्धिवाला, चतुर, उच्चाकांक्षाओं से रहित, सन्तोषी एवं परोपकारी होता है।

आपके जन्म काल में चन्द्रमा द्वितीय भाव में स्थित है। अतः आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा एवं कोई विशेष शारीरिक रुग्णता नहीं रहेगी। वे आपको हमेशा धनार्जन एवं विद्याध्ययन संबंधी कार्यों में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगी। साथ ही आपकी पारिवारिक उन्नति एवं पालन करने में भी उनकी मुख्य भूमिका रहेगी यदा कदा वे आपको नैतिक शिक्षा भी देंगी तथा आपके प्रति उनके हृदय में पूर्ण वात्सल्य का भाव रहेगा। इसके साथ ही जीवन में कई महत्वपूर्ण कार्यों की सिद्धि आप उनके सहयोग से ही करेंगे।

आप की भी माता के प्रति हादिक श्रद्धा रहेगी एवं उनकी आज्ञा पालन करने में आप गौरव की अनुभूति करेंगे। साथ ही जीवन में सर्वप्रकार से उनकी सेवा करना आप अपना कर्तव्य समझेंगे तथा समयानुसार उनको आर्थिक सहयोग भी प्रदान करते रहेंगे। अतः आपकी परस्पर संबंध मधुर रहेंगे एवं जीवन में एक दूसरों की सहायता एवं सहयोग का आदान प्रदान करके सुखानुभूति करेंगे।

Shri Dadaji Jyotish Kendra

Shop No 05, Sanskrit Mahavidyalaya Parisar Itarsi

8871726789

dadajijyotishkendra@gmail.com

मंगल

तृतीयभाव में मंगल हो तो जातक कटुभाष, भृत्कष्टकारक, प्रदीप्त जठराग्निवाला, बलवान्, बन्धुहीन, सर्वगुणी, साहसी, धैर्यवान् प्रसिद्ध एवं शूरवीर होता है।

वृश्चिक राशि में मंगल हो तो जातक नीति-दक्ष, अच्छी स्मरण शक्ति ईर्ष्यालु स्वभाववाला, बहुतहठी, अभिमानी, चोरों का नेता, पातकी एवं दुराचारी होता है।

आपके जन्म समय में मंगल तृतीय भाव में स्थित है अतः आपके भाई बहिनों का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा तथा यदा कदा वे शारीरिक रूप से व्याकुलता की अनुभूति करेंगे। शक्ति, साहस तथा पराक्रम से वे युक्त रहेंगे। साथ ही जीवन में सभी शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में आपको यथायोग्य सहयोग प्रदान करते रहेंगे। धन धान्य से भी वे युक्त रहेंगे एवं समयानुसार आपकी आर्थिक सहयोग भी प्रदान करेंगे। साथ ही सुख दुःख में आपकी पूरी सहायता करेंगे।

आपके हृदय में भी उनके प्रति पूर्ण स्नेह की भावना रहेगी एवं सर्वदा विषम परिस्थितियों में भी उनका पूर्ण सहयोग करेंगे। आप के परस्पर संबंध मधुर होंगे परन्तु यदा कदा मतवैमिन्यता के कारण उनमें कटुता या तनाव भी उत्पन्न होगा परन्तु वह अल्प समय के लिए रहेगा कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। साथ ही आप सुख दुःख में भी उनको अपनी ओर से पूर्ण सहायता प्रदान करेंगे। इस प्रकार आप भाई बहिनों के सुख मध्यम रूप से ही अर्जित कर सकेंगे।

बुध

तृतीयभाव में बुध हो तो जातक सद्गुणी, कार्यदक्ष, परिश्रमी, मित्रप्रेमी, भीरु, धर्मात्मा, यात्राशील, व्यवसायी, चंचल, अल्पभातृवान्, विलासी, सन्ततिवान्, कवि, सम्पादक, सामुद्रिकशास्त्र का ज्ञाता एवं लेखक होता है।

वृश्चिक राशि में बुध हो तो जातक व्यसनी, दुराचारी, मुखर्ष, ऋणी भिक्षुक, अनैतिक चरित्र, रतिक्रिया की अति करने वाला, गुप्तांगों के रोगों से पीड़ित, स्वार्थी एवं अपशब्द बोलने वाला होता है।

गुरु

ग्यारहवें भाव में गुरु हो तो जातक व्यवसायी, धनिक, सन्तोषी, सुन्दरनिरोगी, लाभवान्, पराकमी, सद्ब्ययी, बहुस्त्रीयुक्त, विद्वान् राजपूज्य एवं अल्पसन्ततिवान् होता है।

कर्क राशि में गुरु हो तो जातक सदाचारी, विद्वान्, सत्यवक्ता महायशस्वी, साम्यवादी, सुधारक, योगी, लोकमान्य, सुखी, धनी, नेता, कुशाबुद्धि एवं वफादार होता है।

शुक्र

द्वितीयभाव में शुक्र हो तो जातक भाग्यवान्, साहसी, समयज्ञ, मिष्टान्नभोजी, यशस्वी, लोकप्रिय, जौहरी, दीर्घजीवी, कवि, कुटुम्बयुक्त, सुखी एवं धनवान् होता है।

तुला राशि में शुक्र हो तो जातक विलासी, कलानिपुण, प्रवासी, यशस्वी, कार्यदक्ष, कुशाबुद्धि, उदार, दार्शनिक, सुन्दर, सुखी विवाहित जीवन, अभिमानी, बौद्धिक कामों में रुचि, कविता और उपन्यास लिखने में रुचि एवं संतुलित स्वभाव होता है।

शनि

बारहवें भाव में शनि हो तो जातक आलसी, दुष्ट, व्यसनी, व्यर्थ व्यय करने वाला, अपस्मार, उन्माद का रोगी, मातुलकष्टदायक, अविश्वासी एवं कटुभाषी होता है।

सिंह राशि में शनि हो तो जातक लेखक, अध्यापक, कार्यदक्ष, हठी, कमसन्तान, अभागा एवं ईर्ष्यालु स्वभाव वाला होता है।

राहु

लग्न (प्रथम) में राहु हो तो जातक कामी, दुर्बल, मनस्वी, अल्पसन्तति युक्त, राजद्वेषी, नीचकर्मरत दुष्ट, स्तकरोगी, स्वार्थी एवं बात-बात पर सन्देह करने वाला होता है।

कन्या राशि में राहु हो तो जातक लोकप्रिय, मधुरभाषी, कविलेखक, गवैया एवं धनी होता है।

केतु

सप्तम भाव में केतु हो तो जातक मतिमन्द, मूर्ख, दुखद विवाहित जीवन, पति-पत्नी में सम्बन्ध विच्छेद, शत्रुभीरु एवं सुखहीन होता है।

मीन राशि में केतु हो तो जातक परिश्रमी, धार्मिक प्रवृत्तिवाला, कर्णरोगी, प्रवासी, चंचल और कार्यपरायण होता है।

दशा विश्लेषण

महादशा :- केतु
(24/07/2019 - 24/07/2026)

केतु की महादशा 24/07/2019 को आरम्भ और 24/07/2026 को समाप्त होगी। इसकी अवधि 7 वर्ष है। आपकी जन्मकुण्डली में केतु सप्तम भाव में है जहाँ से इसकी दृष्टि लग्न पर है। इसके पूर्व आपकी बुध की दशा चल रही थी जिसकी दशा 17 वर्ष थी। बुध के कारण आपको सम्पत्ति, समृद्धि, यश और ख्याति की प्राप्ति और लम्बी यात्रा हुई होगी। केतु की वर्तमान दशा में यात्रा, व्यापार में वृद्धि और साझेदारों से लाभ होगा।

स्वास्थ्य :

इस दशा के दौरान आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप शक्ति शाली तथा स्फूर्तिवान होंगे। आपको विषाणुजन्य बुखार, चर्मरोग, छूत की बीमारी, फोड़ा, जनन तथा मूत्राशय संबंधी समस्या हो सकती है। कुछ उपायकर इनसे बचा जा सकता है।

अर्थ और व्यवसाय :

इस दशा के दौरान आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। आपको साझेदारों तथा व्यवसाय से लाभ होगा। सट्टे तथा निवेश में लाभ होगा। आपको कार्य में सफलता तथा यश और ख्याति मिलेगी। जीविका-व्यवसाय के लिए उद्योग, इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी, धातु अथवा खनिज प्रौद्योगिकी अथवा हाईवेयर निर्माण अथवा कृषि का चयन कर सकते हैं। रत्न, धातु, चमड़े, मशीनरी लोहा और इस्पात, हाईवेयर, खेल-सामग्री आदि का व्यापार लाभदायक होगा। नौकरीपेशा लोगों को लाभ, आय में वृद्धि तथा सम्मान की प्राप्ति होगी। व्यापार-व्यवसाय से जुड़े लोगों को यश, ख्याति, आदर, सफलता तथा जीवन में प्रगति होगी। यह दशा व्यवसाय में उन्नति के लिए उत्तम है।

वाहन, यात्रा, जायदाद :

शनि की अन्तर्दशा में आपको सभी सुख मिलेंगे। जमीन-जायदाद में वृद्धि होगी। आप एक मकान खरीद सकते हैं। सम्पत्ति के लेन-देन के लिए यह दशा उत्तम है। गुरु की अन्तर्दशा में आपकी छोटी किन्तु, लाभदायक और बुध की अन्तर्दशा में लम्बी यात्रा होगी।

शिक्षा :

आपकी शिक्षा उत्तम होगी। आपको अपना स्तर बनाए रखने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। गणित, इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर विज्ञान, भाषा, मेकैनिक्ल इंजीनियरिंग, प्रशासन और योजना में आपकी रुचि हो सकती है। आप साहसी और आत्मविश्वासी हैं और खेल तथा शिक्षा, अन्य गतिविधियों में अच्छा करेंगे।

परिवार :

परिवार के साथ आपका संबंध मधुर रहेगा। आपके बच्चों को कठिन परिश्रम करना होगा और उनकी छोटी यात्रा होगी। उन्हें आपकी सहायता और मार्गदर्शन की जरूरत होगी।

Shri Dadaji Jyotish Kendra

Shop No 05, Sanskrit Mahavidyalaya Parisar Itarsi


8871726789

dadajijyotishkendra@gmail.com

आपके जीवन साथी को यश, ख्याति और धर्म में रुचि होगी। अपने जीवन साथी के साथ आपका संबंध उत्तम रहेगा। आपकी माता की जमीन-जायदाद में वृद्धि होगी और सफलता मिलेगी जबकि पिता को लाभ, विभिन्न स्रोतों से आय और इच्छाओं की पूर्ति होगी। आपके छोटे भाई-बहनों को सट्टे में लाभ और शिक्षा उत्तम होगी। बड़ों की यात्रा होगी और धन तथा समृद्धि की प्राप्ति होगी।

अन्तर्दशा :

केतु की महादशा में केतु की अन्तर्दशा के दौरान आपकी यात्रा और व्यापार में वृद्धि होगी और सफलता मिलेगी। शुक्र के कारण आपको लाभ मिलेगा और मनोकामनाओं की पूर्ति होगी जबकि चन्द्र की अन्तर्दशा में प्रगति होगी, व्यवसाय में सफलता और लाभ मिलेगा। राहु कुछ बाधा खड़ी कर सकता है। गुरु की अन्तर्दशा के दौरान शत्रु के कारण कुछ समस्या, स्वास्थ्य संबंधी मामूली समस्या और छोटी यात्रा होगी जबकि योगकारक शनि के कारण बच्चों से सुख, सफलता और जीवन का आराम मिलेगा। बुध की अन्तर्दशा में सम्पत्ति और समृद्धि मिलेगी तथा लम्बी यात्रा होगी।



Shri Dadaji Jyotish Kendra

Shop No 05, Sanskrit Mahavidyalaya Parisar Itarsi

8871726789

dadajijyotishkendra@gmail.com

**महादशा :- शुक्र
(24/07/2026 - 24/07/2046)**

आपकी कुण्डली में शुक्र की महादशा 24/07/2026 को आरम्भ होकर 24/07/2046 को समाप्त होगी। इसकी अवधि 20 वर्ष है।

आपकी जन्म कुण्डली में शुक्र द्वितीय भाव में है। यह एक शुभ ग्रह है जिसकी सामान्यतया दो राशियाँ हैं- वृष और तुला। इसकी मूल त्रिकोण राशि तुला है। यह मीन राशि में उच्च का तथा कन्या राशि में निम्न का होता है। यह आनन्द, प्रेम-संबंध, स्वाद तथा फैशन डिजाइनिंग का द्योतक है। यह आपकी कुण्डली में द्वितीय भाव में स्थित है तथा इसकी अष्टम भाव पर दृष्टि है और इस भाव पर शुभ प्रभाव डाल रहा है। द्वितीय भाव धन, लाभ, जगत्व्यापी यश, अधिकार, दाहिना नेत्र, याददाश्त, कल्पना शक्ति, जिह्वा, दाँत, ठोड़ी तथा पारिवारिक सदस्य का द्योतक है। यह मृत्यु का भाव या मारक स्थान भी कहलाता है।

स्वास्थ्य :

महादशेश शुक्र द्वितीय भाव, जो धन, परिवार, तथा जगत्व्यापी स्रोत का द्योतक है, द्वितीय भाव में स्थित है तथा इस भाव को बली कर रहा है जिसके फलस्वरूप इस दशा काल में

Shri Dadaji Jyotish Kendra

Shop No 05, Sanskrit Mahavidyalaya Parisar Itarsi

8871726789

dadajijyotishkendra@gmail.com

आपके साथ कोई बड़ी घटना या दुर्घटना नहीं होगी।

अर्थ संपत्ति :

इस दशा काल में, जो आपके पक्ष में है, आपको चल तथा अचल संपत्ति अर्जित करने का अवसर मिलेगा। आपके व्यय में वृद्धि हो सकती है। स्त्री से या विवाह से तथा दूसरों के सहयोग से भी धन की प्राप्ति होगी।

व्यवसाय :

आप व्यावसायिक स्तर पर सुभ्यस्त रहेंगे तथा वही व्यवसाय अपनाएंगे जिसमें आप उन्नति कर सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति के कुछ अवसर मिलेंगे और इस प्रकार आप अपने भविष्य में उन्नति करेंगे। आपको क्रियात्मकता या फैशन डिजाइनिंग से संबंधित काम करने के कुछ अवसर मिल सकते हैं।

पारिवारिक जीवन :

आपको विवाह में या जीवन साथी से धन की प्राप्ति होगी। आपका पारिवारिक जीवन बहुत ही सफल तथा खुशहाल होगा। आपके जीवन साथी आपका बहुत ही सहयोग करेंगे तथा आपका पारिवारिक जीवन बहुत उत्साहपूर्ण होगा।

शिक्षा/प्रशिक्षण :

यह दशा काल आपकी शैक्षिक तथा प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए शुभ होगा।

Shri Dadaji Jyotish Kendra

Shop No 05, Sanskrit Mahavidyalaya Parisar Itarsi

8871726789

dadajijyotishkendra@gmail.com

**अंतर्दशा :- शुक्र - शुक्र
(24/07/2026 - 22/11/2029)**

शुक्र महादशा की अवधि 20 वर्ष होती है। आपके लिए यह 24/07/2026 को प्रारंभ होकर 24/07/2046 को समाप्त होगी। इस महादशा में शुक्र की अंतर्दशा 3 वर्ष 4 मास की होगी। आपके लिए यह 24/07/2026 को प्रारंभ होकर 22/11/2029 को समाप्त होगी।

शुक्र आपकी जन्मपत्री में द्वितीय भाव में स्थित है। द्वितीय भाव भाग्य, लाभ-हानि, सांसारिक उपलब्धियां, रत्न, वाणी, दायीं आंख, महत्वाकांक्षा, जीभ, दांत और परिवार के सदस्यों का प्रतिनिधि है।

शुक्र शुभ ग्रह है। द्वितीय भाव में स्थित होकर शुक्र आपकी कुंडली के 8वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है और उसके कारकत्व को प्रभावित कर रहा है।

इस अवधि में आपके व्यक्तित्व और सुंदरता में निखार आएगा। उत्तम भोजन के शौकीन होंगे। खान-पान में सावधानी और संयम आवश्यक हैं अन्यथा स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। संयम बरतने पर धन और स्वास्थ्य की स्थिति अति उत्तम रहेगी। वाहन सुख रहेगा। घर में समृद्धि होगी।

शुभत्व में वृद्धि और अरिष्ट से बचाव के लिए निम्न उपाय करें :

- चींटियों को चीनी और आटा खिलाएं।
- कन्याओं को खीर खिलाएं।
- लक्ष्मीजी की उपासना करें।
- भोजन की पहली रोटी गाय को खिलाएं।

**अंतर्दशा :- शुक्र - सूर्य
(22/11/2029 - 22/11/2030)**

शुक्र महादशा की अवधि 20 वर्ष की होगी। आपके लिए यह 24/07/2026 को प्रारंभ होकर 24/07/2046 को समाप्त होगी। इस महादशा में सूर्य की अंतर्दशा 1 वर्ष की होगी जो 22/11/2029 को प्रारंभ होकर 22/11/2030 को समाप्त होगी।

सूर्य आपकी जन्मपत्री में द्वितीय भाव में स्थित है। द्वितीय भाव भाग्य, लाभ-हानि, सांसारिक उपलब्धियां, रत्न, वाणी, दायीं आंख, महत्वाकांक्षा, जीभ, दांत और परिवार के सदस्यों का प्रतिनिधि है। द्वितीय भाव में स्थित होकर सूर्य आपकी पत्रिका के अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहा है और उस पर अपना प्रभाव पहुंचा रहा है।

इस अवधि में आप उदास रह सकते हैं, चेहरा बीमार सा रह सकता है। अधिकारीवर्ग को रुष्ट न करें, अन्यथा हानि होगी। परिश्रम से धनागम होगा। आपके जिद्दी स्वभाव के कारण अचल संपत्ति को हानि पहुंच सकती है। इस कठिन समय में सावधान रहना आवश्यक है।

Shri Dadaji Jyotish Kendra

Shop No 05, Sanskrit Mahavidyalaya Parisar Itarsi

8871726789

dadajijyotishkendra@gmail.com

अरिष्ट से बचाव के लिए सूर्य के तांत्रिक मंत्र का जाप 28000 बार करें। प्रतिदिन सूर्योदय के समय नमस्कार करते हुए सूर्य को जल अर्पित करें।

**अंतर्दशा :- शुक्र - चन्द्र
(22/11/2030 - 23/07/2032)**

शुक्र महादशा की अवधि 20 वर्ष है। आपके लिए यह 24/07/2026 को प्रारंभ हुई थी और 24/07/2046 को समाप्त होगी। इस महादशा में चंद्र की अंतर्दशा 1 वर्ष 8 मास की होगी जो आपके लिए 22/11/2030 से प्रारंभ होकर 23/07/2032 को समाप्त होगी।

चंद्रमा आपकी जन्मपत्री में द्वितीय भाव में स्थित है। द्वितीय भाव भाग्य, लाभ-हानि, सांसारिक उपलब्धियां, रत्न, वाणी, दायीं आंख, महत्वाकांक्षा, जीभ, दांत और परिवार के सदस्यों का प्रतिनिधि है। चंद्रमा मष्तिष्क और माता का कारक है।

द्वितीय भाव में स्थित होकर चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहा है और उसके कारकत्व को प्रभावित कर रहा है।

इस अवधि में आप मृदु भाषी रहेंगे। व्यापार और राजनीति में तरक्की होगी। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनेगी, सब सुख-साधन उपलब्ध रहेंगे।

मृदु स्वभाव, और धनी होने के कारण विपरीत लिंग के लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। वे आपके दिल और दिमाग पर छाये रहेंगे। जीवन में अचानक कुछ घट सकता है जिसका असर मष्तिष्क पर काफी समय तक रहेगा।

शुभत्व में वृद्धि और अरिष्ट से बचाव के लिए चंद्र के वैदिक मंत्र के 11000 जाप करें। शाम को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चा दूध चंद्र मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्पित करें।

Shri Dadaji Jyotish Kendra

Shop No 05, Sanskrit Mahavidyalaya Parisar Itarsi

8871726789

dadajijyotishkendra@gmail.com